

“Innovation Strategies for Poverty Eradication in India” पर मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडिया डेवलपमेंट ऑफ को-एलिसन ऑफ अमेरिका (I.D.C.A.) एवं TYAG-कानपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन

दिनांक 21 फरवरी, 2016 को अपरान्ह 02:00 से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडिया डेवलपमेंट ऑफ कोएलिसन ऑफ अमेरिका (I.D.C.A.) एवं TYAG-कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में “Innovation Strategies for Poverty Eradication in India” के अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन किया गया।

आयोजित सम्मलेन के विशिष्ट-अतिथि डॉ० मोहन जैन, संस्थापक एवं अध्यक्ष, IDCA, USA, से आये थे।

डॉ० मोहन जैन जी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वहां के क्षेत्रिय एन०जी०ओस० के साथ उपरोक्त विषय पर अपना ज्ञान एवं प्राप्त अनुभवों के साझा कर चुके हैं।

श्री पदम् कुमार जैन, उपाध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने विशिष्ट-अतिथि डॉ. मोहन जैन, मुख्य - अतिथि श्री महेश गोयल, डी०जी०एम०, कानपुर-ज़ोन एवं सभी सहभागी एन०जी०ओस० का हार्दिक अभिनन्दन किया।

Innovative Strategies of Eradication of Poverty पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन में निम्नलिखित ए०जी०ओस० ने सहभागिता दर्ज कराई:

- डॉ० रमा कान्त (बिरसा मुंडा वनवासी छात्रावास)
- श्री अंगद सिंह (प्रधानचार्य- BNSD शिक्षा निकेतन इन्टर कॉलेज)
- श्री अरविन्द जैन (जैन विद्यालय एवं औषधालय)
- श्री आशीष मित्तल (संस्थापक- प्लान माय स्कूल नॉएडा)
- प्रोफेसर राकेश कुमार त्रिवेदी (निदेशक- STEP HBTI)
- डॉ० आर०एन० चौरसिया (संस्थापक- मोहन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल)
- डॉ० गौरव पाण्डेय (निदेशक- आर०के० देवी आई रिसर्च इंस्टीट्यूट)
- डॉ० ए०एस० प्रसाद (संस्थापक- स्वास्थ्य समाज)
- डॉ० किरण पाण्डेय (वीमेन हेल्थ केयर)
- मिस नीलम चतुर्वेदी (संस्थापक-सखी केंद्र)
- मिस शिला पाण्डेय (संस्थापक- मन्नत फैशन गेलरी)
- श्री अनिल गुप्ता (संस्थापक- परिवर्तन)
- श्री गणेश पाण्डेय (संस्थापक- श्रमिक भारती)
- श्री सुनील ब्रम्हचारी (संस्थापक-जय बाबा योगेश्वर समिति)
- श्री मनोज सेंगर (संस्थापक- YUG दधिची देह दान संस्थान)
- श्रीमती सुप्रभा दुबे (TYAG)
- मिस कंचन मिश्रा (संस्थापक- सेवा संस्थान)

विभिन्न क्षेत्रों से सहभागिता दर्ज करा रहे सभी एन०जी०ओस० ने अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत उद्देश्यों को साझा किया एवं उस पर पॉवर-पॉइंट प्रस्तुति भी दिया।

डॉ० मोहन जैन, जो कि प्रवासी भारतीय है, ने महसूस किया कि उन्हें भी इस मातृभूमि का ऋण चुकाना है और इसके लिए वह हमेशा भारत भी आते रहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में व्याप्त गरीबी को मिटाना है। डॉ० जैन ने I.D.C.A. के Vision, Mission एवं Accomplishments के बारे में विस्तारपूर्वक सूचित किया। उन्होंने यह भी बताया हम लोग कैसे एक संगठित प्रयास से भारत में व्याप्त गरीबी को हटाने एवं Cimate

change जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर तथा बदलाव ला सकते हैं। डॉ० मोहन जैन ने सम्पर्क स्थापित करने (Networking), सभागिता (collaboration), सीखने (learning) एवं स्वयं सेवा (volunteering) के लिए प्रेरित किया।

डॉ० जैन ने यह भी सूचित किया कि वे कानपुर से सम्बंधित प्रोग्राम और बड़े स्तर पर संचालित करेंगे और अमेरिका में भारतीयों द्वारा बनाई गई समकक्ष संस्थाओं से जोड़ेंगे तथा यहाँ कि संस्थाओं से संपर्क में रहेंगे।

डॉ० जैन ने यह भी बताया कि वे “सीखो और साझा करो” एवं “साझा करो और सीखो” की नीति पर विश्वास करते हैं।

श्री महेश गोयल, डी०जी०एम०, कानपुर-ज़ोन, ने धर्म व सेवा के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। श्री गोयल जी ने ये भी बताया कि समाज सेवा तथा गरीबी उन्मूलन के कार्यों से सम्बंधित कोई भी संस्था 80G में पंजीकृत होकर SBI से डोनेशन के लिए प्रार्थना कर सकती है।

डॉ० अवध दुबे, संस्थापक, TYAG-कानपुर, ने इस सम्मलेन को संचालित किया।

डॉ० मोहन जैन सहभागी एन०जी०ओस० द्वारा किये जा रहे कार्य को सराहा तथा उनको प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये।

उपस्थित गणमान्य: श्री ए०के० सिन्हा, सचिव, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री एम०एल०जैन, डॉ० जे०एन० गुप्ता, डॉ० ए०एस०प्रसाद, एवं मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यगण तथा TYAG-कानपुर के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश